



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 52-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 25, 2018 (PAUSA 4, 1940 SAKA)

General Review

स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 28 नवम्बर, 2018

क्रमांक 46/29/2018-5एच०बी०II.— स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की इस वार्षिक रिपोर्ट में चिकित्सा संस्थाओं तथा जनता को दी गई स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का वर्णन है जोकि हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदान की है। इस रिपोर्ट में विभिन्न जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे संक्रामक रोगों का कार्यक्रम, मलेरिया, अन्धापन नियन्त्रण, टी0बी0 रोग नियन्त्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि का विस्तृत समावेश है।

31 मार्च, 2017 को राज्य में 3503 चिकित्सा संस्थाएँ कार्य कर रही थी। इन चिकित्सा संस्थाओं में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय, जिला क्षयरोग केन्द्र एवं उप केन्द्र आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2016 के दौरान मलेरिया के 7866 केस रिपोर्ट किये गये, जो वर्ष 2015 की अपेक्षा 18.3% कम हैं।

वर्ष 2016-2017 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 64,854 बन्धीकरण के आप्रेशन किये गये, 2,20,387 महिलाओं को आई0यू0सी0डी0 (कापर टी) लगायी गयी और 1,92,64,892 निरोध तथा 10,08,493 गर्भ निरोधक गोण्डियों का वितरण दर्ज किया गया जबकि पूर्ववर्ती वर्ष 2015-2016 में 70,591 बन्धीकरण के आप्रेशन तथा 2,33,497 महिलाओं को आई0यू0सी0डी0 (कापर-टी) लगाये गये थे। 1,77,94,186 निरोध तथा 9,99,260 गर्भ निरोधक के स्थान पर जिलों से प्राप्त विवरण अनुसार कार्यभार निर्धारित किया जाता है।

राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वितीय चरण को 2 अप्रैल 2005 से लागू किया गया। इसके अन्तर्गत आशा, लिंक वोलेन्टीयरस, प्रथम रैफरल यूनिट को सुदृढ़ करना, जननी सुरक्षा योजना, रैफरल ट्रांसपोर्ट सुविधा, वित्त प्रबन्ध प्रक्रिया में सुधार के लिये राज्य एवं जिला स्तर की कार्यक्रम प्रबन्धन यूनिटों का सुदृढीकरण, प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण, आवश्यक उपकरणों का उचित प्रबन्ध एवं संस्थानिक डिलीवरी, परिवार नियोजन सेवाओं, टीकाकरण आदि कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी कराके उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016-2017 में 498.27 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। जिस में से 482.73 करोड़ रुपये व्यय किए गए जो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजीनिंग, रूटीन ईमूनाइजेशन, अन टाइड फडन्स फार सब-सैटर, आई0ई0सी0 आदि गतिविधियों पर व्यय की गई है।

वर्ष 2016-2017 के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा केवल 2 नई नियुक्तियाँ की गई जो की पूर्व सेनिक (ESM) से सम्बन्धित थी।

दिनांक 07 सितम्बर, 2018.

आर० आर० जोवल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

**Review of the Annual Administrative Report of the Department of Health Department, Haryana
for the Year 2016-2017**

The 28th November, 2018

No. 46/29/2018-5HBII.— The Annual Administrative report of the Health Department, Haryana contains information of medical and health facilities provided to the public in Haryana state by the Health department. The details of various public health programmes like control of communicable diseases, National Vector Borne Disease control Programme, Control of Blindness Programme, Control of T.B., Family Welfare Programme etc. have been incorporated.

There were 3503 medical institutions functioning in the state as on 31 March, 2017. These medical institutions include hospitals, community health centres, primary health centre, sub centres of the allopathic system.

During the year 2016, 7866 malaria cases were reported which has 18.3 % lower than compared to 2015.

Under the family welfare programme, 64,854 Sterilization operations were performed, 2,20,387 I.U.C.D's (Intra Utrine Contraceptive Device) were inserted and 1,92,64,892 Condom Pieces and 10,08,493 Oral pill cycles were distributed / registered during the year 2016-17 as against 1,77,94,186 Condom Pieces and 9,99,260 Oral pill cycles distributed / registered during the year 2015-16. Instead on the basis of information received.

Reproductive & Child Health Programme Phase II under the banner of National Rural Health Mission was launched in Haryana State on 2nd April, 2005. The Mission lays emphasis ASHA as Link Volunteers, First Referral Unit operationalization and components of Janani Suraksha Yojna, Referral Transport, Strengthening Programme Management Unit at State and district level with particular emphasis on improved financial management system, Strengthening of training institutions, Logistic Management and Public Private partnerships to provide quantifiable services for institutional delivery and family planning services, immunization. For this purpose during year 2016-17 a plan of worth Rs. 498.27 crore was sanctioned under the Programme. A sum of Rs. 482.73 crore was spent against it. The expenditure has been incurred on RCH flexipool, Infrastructure Strengthening, routine immunization, Untied funds for sub-centres, IEC activities etc.

During the year 2016-17, 2 new appointments were made in the Health department which belongs to ESM category.

The 7th September, 2018.

R. R. JOWEL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Health Department.